



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 19.11.2021

1-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 19.11.2021 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1.कासिम पुत्र इफाकत अली निवासी व्यापारी वाली गली, जलपुरा, हल्दौनी, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम अनुपपुर डिबाई, थाना सिंभावली, जिला हापुड, 2. सचिन पुत्र अरविन्द्र निवासी हनुमान वाली मूर्ति के पास, गांव सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा मूल पता गांव भैसवाल, थाना गठी चौखंडी, जिला शामली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-37 चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल यूपी 16 बीयू 9206 व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है।

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह मोटरसाइकिल उनके द्वारा सेक्टर-05 से चोरी की गई थी।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.कासिम पुत्र इफाकत अली निवासी व्यापारी वाली गली, जलपुरा, हलदौनी, गौतमबुद्धनगर मूल पता ग्राम अनुपपुर डिबाई, थाना सिंभावली, जिला हापुड।
- 2.सचिन पुत्र अरविन्द्र निवासी हनुमान वाली मूर्ति के पास, गांव सलारपुर, थाना सेक्टर-39 नोएडा मूल पता गांव भैसवाल, थाना गठी चौखंडी, जिला शामली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 881/21 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम कासिम।
- 2.मु0अ0सं0 882/21 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम सचिन।
- 3.मु0अ0सं0 1117/21 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

1.01 मोटरसाइकिल यूपी 16 बीयू 9206

2. 02 अवैध चाकू



2-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा घर में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 900 रूपये बरामद।

दिनांक 19/11/2021 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा घर में चोरी करने वाले 01 अभियुक्त दिनेश सुनार पुत्र गणेश सुनार निवासी देवपाड़ा टी स्टेट अय्याज्योति वस्ती जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल वर्तमान निवासी नीयर गुल्लू होटल किशनगढ बसन्तकुंज दिल्ली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-52 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 900 रूपये बरामद किये गये है।

दिनांक 10/11/2021 को फ्लैट नं0 49 ए ई-3 शताब्दी विहार सेक्टर-52 नोएडा मे चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना सेक्टर 24 नोएडा पर मु0अ0सं0 1002/21 धारा 381 भादवि पंजीकृत हुआ किया गया था ।अभियुक्त द्वारा एस0एस0 प्लेसमेन्ट कम्पनी के नाम से ऑनलाईन डिमान्ड पर मेड को घर पर कार्य करने भेजा जाता है जो 2-3 महीने मे मकान मालिक को विश्वास मे लेकर कीमती सामान व पैसे चुराकर भाग जाते है।

अभियुक्त का विवरण:

दिनेश सुनार पुत्र गणेश सुनार निवासी देवपाड़ा टी स्टेट अय्याज्योति वस्ती जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल वर्तमान निवासी नीयर गुल्लू होटल किशनगढ बसन्तकुंज दिल्ली।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1002/21 धारा 380/411/120 बी भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

चोरी के 900 रूपये

